



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.- 20012025-260335
CG-DL-E-20012025-260335

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2025/पौष 27, 1946

No. 53]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2025/PAUSHA 27, 1946

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

[संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

संख्या 13-सीए (परीक्षा)/ मई/2025—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 22 के अनुसरण में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अगली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं नीचे दी गई तिथियों और स्थानों पर आयोजित की जाएंगी, बशर्ते कि नीचे उल्लिखित प्रत्येक स्थान से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपस्थित होने की पेशकश करें।

इसी प्रकार, विनियम 204 के तहत पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स में परीक्षा, अर्थात: अंतर्राष्ट्रीय कराधान - मूल्यांकन परीक्षण (आईएनटीटी - एटी) (जो संस्थान के सदस्यों के लिए खुली है) नीचे दी गई तिथियों और स्थानों (केवल भारत में केंद्र) पर आयोजित की जाएंगी, बशर्ते कि नीचे उल्लिखित प्रत्येक स्थान से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपस्थित होने की पेशकश करें।

फाउंडेशन कोर्स परीक्षा

[चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 25 एफ के तहत परिषद द्वारा अधिसूचित योजना में निहित पाठ्यक्रम के अनुसार।]

15, 17, 19 और 21 मई 2025

इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम परीक्षा

[चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 28 एफ के तहत परिषद द्वारा अधिसूचित योजना में निहित पाठ्यक्रम के अनुसार।]

ग्रुप- I: 3, 5 और 7 मई 2025

ग्रुप-II: 9, 11 और 14 मई 2025

फाइनल परीक्षा

[चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 31 के तहत परिषद द्वारा अधिसूचित योजना में निहित पाठ्यक्रम के अनुसार।]

ग्रुप- I: 2, 4 और 6 मई 2025

ग्रुप-II: 8, 10 और 13 मई 2025

सदस्यों की परीक्षा

अंतर्राष्ट्रीय कराधान - मूल्यांकन परीक्षा (आईएनटीटी - एटी)

10 और 13 मई 2025

12 मई 2025 (सोमवार) को बुद्ध पूर्णिमा के कारण कोई परीक्षा निर्धारित नहीं है, जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एफ. सं.12/2/2023-JCA दिनांक 9.07.2024 के अनुसार एक अनिवार्य (राजपत्रित) केंद्र सरकार का अवकाश है।

इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा परीक्षा कार्यक्रम के किसी भी दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा।

फाउंडेशन परीक्षा के पेपर 3 और 4 की अवधि 2 घंटे के हैं इसी तरह, फाइनल परीक्षा का पेपर-6 और अंतर्राष्ट्रीय कराधान-मूल्यांकन परीक्षण के सभी पेपर 4 घंटे की अवधि के हैं। हालाँकि, अन्य सभी परीक्षाएं 3 घंटे की अवधि की हैं, और परीक्षा के अनुसार समय नीचे दिया गया है:

परीक्षा	पेपर	परीक्षा समय (भारतीय समयानुसार)	अवधि
फाउंडेशन	पेपर 1 और 2	दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक	3 घंटे
	पेपर 3 और 4*	दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक	2 घंटे
इंटरमीडिएट	सभी पेपर	दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक	3 घंटे
फाइनल	पेपर 1 से 5	दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक	3 घंटे
	पेपर 6	दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक	4 घंटे
पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स परीक्षा यानी, अंतर्राष्ट्रीय कराधान (आईएनटीटी - एटी)	सभी पेपर	दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक	4 घंटे

* फाउंडेशन परीक्षा के प्रश्नपत्र 3 और 4 में और पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स परीक्षा के सभी प्रश्नपत्रों में पढ़ने का कोई अग्रिम समय नहीं होगा, जबकि ऊपर उल्लिखित अन्य सभी प्रश्नपत्रों /परीक्षाओं में दोपहर 1.45 बजे से दोपहर 2 बजे तक (भारतीय समयानुसार) 15 मिनट का अग्रिम पढ़ने का समय दिया जाएगा।

इसके अलावा, एमसीक्यू आधारित और वर्णनात्मक प्रश्न पत्र वाले संयुक्त प्रश्नपत्रों के मामले में, एमसीक्यू आधारित प्रश्न पत्र की सील दोपहर 2 बजे (भारतीय समयानुसार) खोली जाएगी, दूसरे शब्दों में एमसीक्यू आधारित प्रश्न पत्रों के लिए कोई अग्रिम पढ़ने का समय नहीं होगा।

परीक्षा केंद्रों के स्थान:

चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा, मई 2025 निम्नलिखित भारतीय शहरों में आयोजित की जाएगी:

राज्य का नाम	(शहरों की संख्या)	परीक्षा शहर का नाम
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	पोर्ट ब्लेयर
आंध्र प्रदेश	14	अनंतपुर, एलुरु, गुंटूर, कडप्पा, काकीनाडा, कुरनूल, नेल्लोर, ओंगोल, राजमहेन्द्रवरम, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और विजयनगरम
असम	5	डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर और तिनसुकिया
बिहार	12	बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और सीवान
छत्तीसगढ़	6	बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव
चंडीगढ़	1	चंडीगढ़
दिल्ली/नई दिल्ली	1	दिल्ली/नई दिल्ली
गोवा	2	मापुसा और मडगांव
गुजरात	23	अहमदाबाद, आनंद, भरूच, भावनगर, भुज, गांधीधाम, गांधीनगर, हिम्मतनगर, जामनगर, जूनागढ़, मेहसाणा, मोरबी, नडियाद, नवसारी, पालनपुर, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, सूरत, सुरेंद्रनगर, वडोदरा, वलसाड और वापी
हरियाणा	18	अंबाला, बहादुरगढ़, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुडगांव (गुरुग्राम), हिसार, जिंद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर
हिमाचल प्रदेश	1	शिमला
जम्मू और कश्मीर	2	जम्मू और श्रीनगर
झारखंड	7	बोकारो स्टील सिटी, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रामगढ़ और रांची
कर्नाटक	23	बागलकोट, बेलगाम, बेल्लारी, बेंगलुरु, चिक्कबल्लापुर, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, गडग, हसन, हावेरी, हुबली, कलबुर्गी (गुलबर्गा), कोलार, कोप्पल, मांड्या, मैंगलोर, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, सिरसी, तुमकुरु, उडुपी और विजयपुरा
केरल	14	अदूर, अलाप्पुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कलपेट्टा, कन्नूर, कासरगोड, कोल्लम (क्विलोन), कोट्टायम, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर
मध्य प्रदेश	16	भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना और उज्जैन
महाराष्ट्र	36	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बदलापुर, बीड, भिवंडी, खामगांव (बुलढाणा), चंद्रपुर, धुले, गोंदिया, इचलकरंजी, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड, नंदुरबार, नासिक, नवी मुंबई, पालघर, पनवेल, परभणी, पिंपरी-चिंचवाड, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, ठाणे, वसई, वर्धा और यवतमाल
मणिपुर	1	इम्फाल
मेघालय	1	शिलांग

मिजोरम	1	आइजोल
नागालैंड	1	दीमापुर
ओडिशा	10	बलांगीर, बालासोर, बेरहामपुर (ब्रह्मपुर), भुवनेश्वर, कटक, झारसुगुडा, पुरी, रायगडा, राउरकेला और संबलपुर
पुडुचेरी	1	पुडुचेरी
पंजाब	8	अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मंडी, गोबिंदगढ़, पठानकोट, पटियाला और संगरूर
राजस्थान	23	अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, किशनगढ़, कोटा, नागौर, पाली - मारवाड़, राजसमंद, सीकर, सिरोही, श्री गंगानगर और उदयपुर
सिक्किम	1	गंगटोक
तमिलनाडु	28	चेन्नई, कोयंबटूर, कुड्डालोर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, इरोड, होसुर, कांचीपुरम, कराईकुडी, करूर, कुंभकोणम, मदुरै, नागपट्टिनम, नागरकोइल, नामक्कल, पुदुक्कोट्टई, सलेम, शिवकाशी, तंजावुर, थेनी, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तिरुपुर, तिरुवल्लुर, तिरुवन्नमलाई, तूतीकोरिन, वेल्लोर और विल्लुपुरम
तेलंगाना	8	आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, नलगोंडा, निज़ामाबाद और वारंगल
त्रिपुरा	1	अगरतला
उत्तर प्रदेश	19	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद (प्रयागराज), बरेली, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, हापुड, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, सहारनपुर और वाराणसी
उत्तराखंड	4	देहरादून, हलद्वानी, हरिद्वार और काशीपुर
पश्चिम बंगाल	7	आसनसोल, दुर्गापुर, हुगली, खड़गपुर, कोलकाता, रानीगंज और सिलीगुड़ी

विदेशों में परीक्षा केंद्रों के स्थान: [केवल फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के लिए]

मई 2025 की परीक्षाएं 9 (नौ) विदेशी परीक्षा केंद्रों पर भी आयोजित की जाएंगी, अर्थात्:

विदेशी	अबू धाबी, बहरीन, थिम्पू (भूटान), दोहा, दुबई, काठमांडू (नेपाल), कुवैत, मस्कट और रियाद (सऊदी अरब साम्राज्य)
--------	---

अबू धाबी, दुबई और मस्कट केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने का समय दोपहर 12.30 बजे यानी अबू धाबी, दुबई और मस्कट स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे (भारतीय मानक समय) के बराबर / समकक्ष होगा। बहरीन, दोहा, कुवैत और रियाद केंद्र में परीक्षा शुरू होने का समय सुबह 11.30 बजे यानी बहरीन / दोहा / कुवैत और रियाद स्थानीय समयानुसार दोपहर 2 बजे (भारतीय मानक समय) के बराबर होगा। काठमांडू (नेपाल) केंद्र में परीक्षा शुरू होने का समय दोपहर 2.15 बजे नेपाल स्थानीय समयानुसार / दोपहर 2 बजे (भारतीय मानक समय) के बराबर होगा। थिम्पू (भूटान) केंद्र में परीक्षा शुरू होने का समय दोपहर 2.30 बजे भूटान स्थानीय समयानुसार / दोपहर 2 बजे (भारतीय मानक समय) के बराबर होगा।

परिषद बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर किसी भी शहर/केंद्र को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना:

फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के संबंध में सभी उम्मीदवारों को मई 2025 के लिए <https://eservices.icaai.org> (स्वयं सेवा पोर्टल - एसएसपी) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और अपेक्षित परीक्षा शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन करें। ये फॉर्म घोषणाओं और विनियमों के आधार पर आपके पाठ्यक्रम की पात्रता पर आधारित हैं। ये फॉर्म एसएसपी पर उपलब्ध होंगे, और आपसे अपने क्रेडेंशियल्स (उपयोगकर्ता नाम <SRN@icaai.org> और पासवर्ड) के साथ लॉगिन करने का अनुरोध किया जाता है। ये परीक्षा फॉर्म एसएसपी प्रभावी निर्धारित तिथियों में उपलब्ध होंगे जैसा कि www.icaai.org पर घोषित किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें: यदि आपने एसएसपी में उपयोगकर्ता के रूप में कभी पंजीकरण नहीं कराया है, तो कृपया निम्नलिखित यूआरएल खोलें:

<https://eservices.icaai.org/EForms/configuredHtml/1666/57499/Registration.html?action=existing>

यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या खो गए हैं तो कृपया पासवर्ड भूल गए विकल्प का उपयोग करें। छात्रों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे केवल एसएसपी पर उपयोगकर्ता नाम बनाएं, पाठ्यक्रम पंजीकृत करें, पाठ्यक्रम परिवर्तित करें, पुनः सत्यापित करें, फोटो, हस्ताक्षर और पता अपडेट करें।

पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स परीक्षा यानी इंटरनेशनल टैक्सेशन -असेसमेंट टेस्ट) आईएनटीटी - एटी((जो संस्थान के सदस्यों के लिए खुला है (के लिए आवेदन करने के इच्छुक सदस्यों को pqc.icaiaexam.icaai.org पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और लागू परीक्षा शुल्क का केवल ऑनलाइन भुगतान भी करना होगा।

परीक्षा शुल्क वीजा या मास्टर या मेस्ट्रो क्रेडिट/डेबिट कार्ड/रुपे कार्ड/नेट बैंकिंग/भीम यूपीआई का उपयोग करके ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने और सुधार विंडो के लिए ऑनलाइन विंडो खोलना और बंद करना।

निम्नलिखित तिथियों को नोट किया जा सकता है:

विवरण	तिथियाँ
ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की शुरुआत	1 मार्च 2025 [शनिवार]
ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र (बिना विलंब शुल्क के) जमा करने की अंतिम तिथि	14 मार्च 2025 [शुक्रवार]
ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि (₹ 600/- या यूएस \$10 की विलंब शुल्क के साथ)	17 मार्च 2025 [सोमवार]

इसके अलावा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स परीक्षा - मई 2025 के लिए परीक्षा शहर/माध्यम में बदलाव चाहने वाले छात्रों के लिए, पहले से भरे गए परीक्षा फॉर्म के लिए सुधार विंडो 18 मार्च 2025 [मंगलवार] से 20 मार्च 2025 [गुरुवार] के दौरान उपलब्ध होगी।

परीक्षा शुल्क

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क इस प्रकार है:-

इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम परीक्षा	
भारतीय केंद्र के लिए	
एकल समूह/ यूनिट (2 को छोड़कर सभी)	₹ 1500/-
दोनों समूह/यूनिट 2	₹2700/-

विदेशी केंद्रों के लिए - भूटान और काठमांडू केंद्र को छोड़कर	
एकल समूह/ यूनिट (2 को छोड़कर सभी)	यूएस\$ 325
दोनों समूह/यूनिट 2	यूएस\$500
भूटान और काठमांडू केंद्र के लिए	
एकल समूह/ यूनिट (2 को छोड़कर सभी)	₹2200/-
दोनों समूह/यूनिट 2	₹3400/-
फाइनल पाठ्यक्रम परीक्षा	
भारतीय केंद्र के लिए	
एकल समूह	₹1800/-
दोनों समूह	₹3300/-
विदेशी केंद्रों के लिए - भूटान और काठमांडू केंद्र को छोड़कर	
एकल समूह	यूएस\$ 325
दोनों समूह	यूएस\$ 550
भूटान और काठमांडू केंद्र के लिए	
एकल समूह	₹ 2200/-
दोनों समूह	₹ 4000/-
अंतर्राष्ट्रीय कराधान - मूल्यांकन परीक्षण	₹ 2000/-
फाउंडेशन पाठ्यक्रम परीक्षा	
भारतीय केंद्र(केंद्रों) के लिए	₹ 1500/-
विदेशी केंद्र(केंद्रों) के लिए - भूटान और काठमांडू केंद्र(केंद्रों को छोड़कर)	यूएस\$ 325
भूटान और काठमांडू केंद्र के लिए	₹ 2200

निर्धारित अंतिम तिथि के बाद परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के लिए विलंब शुल्क ₹ 600/- (भारतीय/भूटान/काठमांडू केंद्रों के लिए) और यूएस \$10 (विदेश केंद्रों के लिए) होगा, जैसा कि परिषद द्वारा तय किया गया है।

हिंदी में प्रश्नपत्रों के उत्तर देने का विकल्प:

फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्रों का उत्तर देने के लिए अंग्रेजी/हिंदी माध्यम चुनने की अनुमति होगी। विस्तृत जानकारी <https://eservices.icai.org> पर होस्ट किए गए मार्गदर्शन नोट्स में मिलेगी हालाँकि, पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स जैसे: अंतर्राष्ट्रीय कराधान - मूल्यांकन परीक्षा (आईएनटीटी - एटी) परीक्षा के संबंध में परीक्षाओं का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त बातों पर ध्यान दें और संस्थान की वेबसाइट www.icai.org के संपर्क में रहें।

सीए डॉ. जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./909/2024-25]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

[Set up by an Act of Parliament]

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 13-CA (EXAM)/MAY/2025—In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the next Chartered Accountants Foundation, Intermediate and Final Examinations will be held on the dates and places which are given

below provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each of the below mentioned places.

Similarly, Examination in Post Qualification Course under Regulation 204, viz.: International Taxation – Assessment Test (INTT – AT) (which is open to the members of the Institute) will be held on the dates and places (centres in India only) which are given below provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each of the below mentioned places.

FOUNDATION COURSE EXAMINATION

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 25 F of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

15th, 17th, 19th & 21st May 2025

INTERMEDIATE COURSE EXAMINATION

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28 F of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

Group -I: 3rd, 5th & 7th May 2025

Group -II: 9th, 11th & 14th May 2025
--

FINAL EXAMINATION

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 31 of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

Group-I: 2nd, 4th & 6th May 2025
--

Group-II: 8th, 10th & 13th May 2025

MEMBERS' EXAMINATION

INTERNATIONAL TAXATION – ASSESSMENT TEST (INTT – AT)

10th & 13th May 2025

No examination is scheduled on 12th May 2025 (Monday) on account of Budha Purnima, being a compulsory (gazetted) Central Government holiday as per F. No. 12/2/2023-JCA dated 9.07.2024 issued by Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions, Government of India.

It may be emphasized that there would be no change in the examination schedule in the event of any day of the examination schedule being declared a Public Holiday by the Central Government or any State Government / Local Bodies.

Paper(s) 3 & 4 of Foundation Examination are of 2 hours duration. Similarly, Paper – 6 of Final Examination and all papers of International Taxation – Assessment Test are of 4 hours duration. However, all other examinations are of 3 hours duration, and the examination wise timing(s) are given below:

Examination	Paper(s)	Exam. Timings (IST)	Duration
Foundation	Paper 1 & 2	2 PM to 5 PM	3 Hours
	Paper 3 & 4*	2 PM to 4 PM	2 Hours
Intermediate	All Papers	2 PM to 5 PM	3 Hours
Final	Paper 1 to 5	2 PM to 5 PM	3 Hours
	Paper 6	2 PM to 6 PM	4 Hours
Post Qualification Course Examination i.e., International Taxation (INTT – AT)	ALL	2 PM to 6 PM	4 Hours

*In Paper 3 and 4 of Foundation Examination and all papers of Post Qualification Course Examination there will not be any advance reading time, whereas in all other papers / exams mentioned above, an advance reading time of 15 minutes will be given from 1.45 PM (IST) to 2 PM (IST).

Further, in case of composite papers having both MCQs based & Descriptive Question Papers, seal of MCQs based Question Paper shall be opened at 2 PM (IST), in other words there will be no advance reading time for MCQs based Question Papers.

3. PLACES OF EXAMINATION CITIES:

The Chartered Accountants Examinations, May 2025 will be held in the following Indian cities:

Name of the State	(No. of Cities)	Name of the Examination City
Andaman and Nicobar Islands	1	Port Blair
Andhra Pradesh	14	Anantapur, Eluru, Guntur, Kadapa, Kakinada, Kurnool, Nellore, Ongole, Rajamahendravaram, Srikakulam, Tirupati, Vijayawada, Visakhapatnam and Vizianagaram
Assam	5	Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Silchar and Tinsukia
Bihar	12	Begusarai, Bhagalpur, Darbhanga, Gaya, Madhubani, Motihari, Muzaffarpur, Patna, Purnea, Samastipur, Sitamarhi and Siwan
Chattisgarh	6	Bilaspur, Durg, Korba, Raigarh, Raipur and Rajnandgaon
Chandigarh	1	Chandigarh
Delhi / New Delhi	1	Delhi / New Delhi
Goa	2	Mapusa and Margao
Gujarat	23	Ahmedabad, Anand, Bharuch, Bhavnagar, Bhuj, Gandhidham, Gandhinagar, Himatnagar, Jamnagar, Junagadh, Mehsana, Morbi, Nadiad, Navsari, Palanpur, Patan, Porbandar, Rajkot, Surat, Surendranagar, Vadodara, Valsad and Vapi
Haryana	18	Ambala, Bahadurgarh, Bhiwani, Faridabad, Fatehabad, Gurgaon (Gurugram), Hisar, Jind, Kaithal, Karnal, Kurukshetra, Narnaul, Panipat, Rewari, Rohtak, Sirsa, Sonapat and Yamuna Nagar
Himachal Pradesh	1	Shimla
Jammu & Kashmir	2	Jammu and Srinagar
Jharkhand	7	Bokaro Steel City, Deoghar, Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur, Ramgarh and Ranchi
Karnataka	23	Bagalkot, Belgaum, Bellary, Bengaluru, Chikkaballapur, Chitradurga, Davangere, Gadag, Hassan, Haveri, Hubli, Kalaburgi (Gulbarga), Kolar, Koppal, Mandya, Mangalore, Mysore, Raichur, Shimoga, Sirsi, Tumakuru, Udupi and Vijayapura
Kerala	14	Adoor, Alappuzha, Ernakulam, Idukki, Kalpetta, Kannur, Kasaragod, Kollam (Quilon), Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Thiruvananthapuram and Thrissur
Madhya Pradesh	16	Bhopal, Burhanpur, Chhatarpur, Chhindwara, Gwalior, Indore, Jabalpur, Katni, Khandwa, Mandsaur, Neemuch, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna and Ujjain
Maharashtra	36	Ahmednagar, Akola, Amravati, Aurangabad, Badlapur, Beed, Bhiwandi, Khamgaon (Buldhana), Chandrapur, Dhule, Gondia, Ichalkaranji, Jalgaon, Jalna, Kolhapur, Latur, Mumbai, Nagpur, Nanded, Nandurbar, Nashik, Navi Mumbai, Palghar, Panvel, Parbhani, Pimpri-Chinchwad, Pune, Ratnagiri, Sangli, Satara, Sindhudurg, Solapur, Thane, Vasai, Wardha and Yavatmal
Manipur	1	Imphal
Meghalaya	1	Shillong
Mizoram	1	Aizawal
Nagaland	1	Dimapur
Odisha	10	Balangir, Balasore, Berhampur (Brahmapur), Bhubaneswar, Cuttack, Jharsuguda, Puri, Rayagada, Rourkela and Sambalpur
Puducherry	1	Puducherry

Punjab	8	Amritsar, Bathinda, Jalandhar, Ludhiana, Mandi Gobindgarh, Pathankot, Patiala and Sangrur
Rajasthan	23	Ajmer, Alwar, Balotra, Banswara, Beawar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Bundi, Chittorgarh, Churu, Jaipur, Jhunjhunu, Jodhpur, Kishangarh, Kota, Nagaur, Pali - Marwar, Rajsamand, Sikar, Sirohi, Sri Ganganagar and Udaipur
Sikkim	1	Gangtok
Tamil Nadu	28	Chennai, Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Hosur, Kancheepuram, Karaikudi, Karur, Kumbakonam, Madurai, Nagapattinam, Nagercoil, Namakkal, Pudukkottai, Salem, Sivakasi, Thanjavur, Theni, Tiruchirapalli, Tirunelveli, Tirupur, Tiruvallur, Tiruvannamalai, Tuticorin, Vellore and Villupuram
Telangana	8	Adilabad, Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahabubnagar, Nalgonda, Nizamabad and Warangal
Tripura	1	Agartala
Uttar Pradesh	19	Agra, Aligarh, Allahabad (Prayagraj), Bareilly, Bulandshahr, Firozabad, Ghaziabad, Gorakhpur, Hapur, Jhansi, Kanpur, Lucknow, Mathura, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Noida, Saharanpur and Varanasi
Uttarakhand	4	Dehradun, Haldwani, Haridwar and Kashipur
West Bengal	7	Asansol, Durgapur, Hooghly, Kharagpur, Kolkata, Raniganj and Siliguri

PLACES OF EXAMINATION CITIES OVERSEAS:

[FOR FOUNDATION, INTERMEDIATE AND FINAL EXAMINATIONS ONLY]

The May 2025 Examinations will also be held at 9 (Nine) overseas examination cities, namely:

Overseas	Abu Dhabi, Bahrain, Thimpu (Bhutan), Doha, Dubai, Kathmandu (Nepal), Kuwait, Muscat and Riyadh (Kingdom of Saudi Arabia)
----------	--

The Examination commencement timing at Abu Dhabi, Dubai and Muscat Centres will be 12.30 PM i.e., Abu Dhabi, Dubai and Muscat local time corresponding / equivalent to 2 PM. (IST). The Examination commencement timing at Bahrain, Doha, Kuwait and Riyadh Centres will be 11.30 AM i.e., Bahrain / Doha / Kuwait / Riyadh local time corresponding / equivalent to 2 PM (IST). The Examination commencement Timing at Kathmandu (Nepal) Centre will be 2.15 PM Nepal local time corresponding / equivalent to 2 PM (IST). The Examination commencement timing at Thimpu (Bhutan) Centre will be 2.30 PM Bhutan local time corresponding / equivalent to 2 PM (IST).

The ICAI reserves the right to withdraw any city / centre at any stage without assigning any reason.

Online filling up of examination forms:

All candidates in respect of Foundation, Intermediate and Final Examinations will be required to apply online at <https://eservices.icai.org> (Self Service Portal - SSP) for May 2025 Examination and also pay the requisite examination fee online. These forms are based on your eligibility of your course based on announcements and regulations. These forms will be available on SSP, and you are requested to login with your credentials (Username <SRN@icai.org> and password). These Exam forms will be available in SSP effective designated dates as announced on www.icai.org.

Kindly Note: If you have never registered as a user in SSP, kindly open the following URL:

<https://eservices.icai.org/EForms/configuredHtml/1666/57499/Registration.html?action=existing>

Please use forgot password option in case you have forgotten or lost your password. Students are also requested to Create Username, Register Course, Convert Course, Revalidate, Update Photo, Signature and Address on SSP only.

Members desirous to apply for Post Qualification Course Examination i.e. International Taxation – Assessment Test (INTT – AT) Examination [which is open to the members of the Institute] are required to apply on-line at pqc.icaiaexam.icai.org and also pay the applicable examination fee online only.

Examination fee can be remitted on-line by using VISA or MASTER or MAESTRO Credit / Debit Card / Rupay Card / Net Banking / Bhim UPI.

Opening and closing of online window for submission of examination application forms.

The following date(s) may be noted:

Details	Dates
Commencement of submission of online examination application forms	1st March 2025 [Saturday]
Last date for submission of online examination application forms (without late fees)	14th March 2025 [Friday]
Last date for submission of online examination application forms (with late fees of ₹ 600/- or US \$ 10)	17th March 2025 [Monday]

Further, for students seeking change of examination city / medium for the Chartered Accountants Examination – May 2025, the correction window for the examination forms already filled will be available during 18th March 2025 [Tuesday] to 20th March 2025 [Thursday].

Examination Fee

The examination fee(s) for various courses are as under: --

Intermediate Course Examination	
For Indian Centre(s)	
Single Group / Unit (All except 2)	₹ 1500/-
Both Groups / Unit 2	₹ 2700/-
For Overseas Centre(s) – Excluding Bhutan & Kathmandu Centre	
Single Group / Unit (All except 2)	US\$ 325
Both Groups / Unit 2	US\$ 500
For Bhutan & Kathmandu Centre(s)	
Single Group / Unit (All except 2)	INR ₹ 2200
Both Groups / Unit 2	INR ₹ 3400
Final Course Examination	
For Indian Centre(s)	
Single Group	₹ 1800/-
Both Groups	₹ 3300/-
For Overseas Centre(s) – Excluding Bhutan & Kathmandu Centre	
Single Group	US\$ 325
Both Groups	US\$ 550
For Bhutan & Kathmandu Centre(s)	
Single Group	INR ₹ 2200
Both Groups	INR ₹ 4000
INTERNATIONAL TAXATION – ASSESSMENT TEST	
	₹ 2000/-
Foundation Course Examination	
For Indian Centre(s)	
	₹ 1500/-
For Overseas Centre(s) – Excluding Bhutan & Kathmandu Centre(s)	
	US\$ 325
For Bhutan & Kathmandu Centre(s)	
	INR ₹ 2200

The late fee for submission of examination application form after the scheduled last date would be ₹ 600/- (for Indian / Bhutan / Kathmandu Centres) and US \$ 10 (for Abroad Centres) as decided by the Council.

OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI:

Candidates of Foundation, Intermediate and Final Examinations will be allowed to opt for English / Hindi medium for answering papers. Detailed information will be found in guidance notes hosted at <https://eservices.icai.org>. However, the medium of Examinations will be only English in respect of Post Qualification Course viz.: International Taxation – Assessment Test (INTT – AT) Examination.

The Candidates are advised to note the above and stay in touch with the website of the Institute, www.icai.org.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./909/2024-25]